



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1096) पटना, बुधवार, 20 नवम्बर 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

19 नवम्बर 2024

सं० 3/एच०-01/2023सा०प्र०/18472—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक—ECI/PN/156/2024 दिनांक—04.11.2024 द्वारा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद् स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन—2024 के लिए दिनांक—05.12.2024 (गुरुवार) को मतदान की तिथि निर्धारित किये जाने के संबंध में सूचित किया गया है।

उक्त के आलोक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का पत्रांक—12/7/94-JCA दिनांक—16.05.1994 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135—ख में निहित प्रावधानों के तहत तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद् स्नातक के उप निर्वाचन—2024 के लिए दिनांक—05.12.2024 (गुरुवार) को, मताधिकार का प्रयोग करने हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अनुमान्य की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
गुफरान अहमद,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1096-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>